

HOLIDAY ASSIGNMENTS (2025-26)

GRADE – IV

Note: All the assignments should be done neatly. Mention your name, class, section, roll no, properly. Use A4 size papers or chart papers to complete your assignments.

ENGLISH

1. Create a model or poster illustrating the different Parts of Speech.
2. Write a short biography on “Helen Keller” in an about 100 words. Use A4 size paper. Include important information. Draw or paste a picture of “Helen Keller”.

HINDI

1. अपने मनपसंद पोशाक का चित्र बनाते हुए उसके बारे में आठ से दस वाक्य लिखिए।
or
“सर्दी का मौसम” पर एक सुंदर अनुच्छेद लिखो। इसी विषय पर एक चित्र बनाओ (जैसे – बच्चे आग सेंक रहे हों, सूरज की धूप में बैठे हों)।
3. आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या-क्या कर रहे हैं इस पर अपने विचार लिखें।

ENVIRONMENTAL STUDIES

1. Prepare a chart on the topic “Seed Germination” with a suitable and well-labelled diagram, and write an explanation in your own words on an A4-sized sheet.
2. "Write a short note on an A4 sheet explaining why we should save water."

COMPUTER

1. Make a stepwise chart showing how to solve a picture puzzle using logical thinking.
2. Draw or paste four pictures in a group where one picture is different — explain which one is the odd one out and why.

Note: Do in the A4 size paper and paste it class notebook.

MATHEMATICS

1. List 5 items from your home and write their estimated measurements using metric units (grams, kilograms, millilitres, liters, meters, or centimeters).
(Examples: A water bottle – 1 litre, A bag of rice – 5 kg)
2. Draw a small picture of each item next to its measurement (hand-drawn or pasted).
3. At the bottom of the page, write 2 sentences explaining:

- a) Why we use metric units.
- b) Which metric unit you use most at home and why.
- 4. Use colour to make your assignment neat and eye-catching.

And

2. Art with Mathematics:

Make a *Math Shape Collage* using cut-outs of rectangles, squares, triangles, and circles.

- Write formulas beside each:
- Square $\rightarrow \text{Area} = \text{side} \times \text{side}$
- Rectangle $\rightarrow \text{Area} = L \times B$
- Triangle $\rightarrow \text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$
- Circle $\rightarrow \text{Area} = \pi r^2$
- Colour each shape differently.
